

No. A-12025/10/2009-Adm.I
GOVERNMENT OF INDIA
PLANNING COMMISSION

Planning Commission requires the services of a suitable Officer for appointment to the post of Deputy Adviser (Textiles) to be filled up by composite method i.e. "Promotion/ Transfer on Deputation (including short-term contract)" basis. The selection for the post will be made by the UPSC.

Details of the vacancy is as under:-

1. SCALE OF PAY : Rs.15600-39100 +7600 (Grade Pay)
[Pre-revised Scale of Pay of Rs.12000-375-16500]

2. DUTIES ATTACHED TO THE POST:

Deputy Adviser (Textiles)

- (i) Planning in relation to various aspects of development of Textile Industry.
- (ii) Examination of specific economic and other developmental aspects of problems arising in these industries.

3. ELIGIBILITY :

(I) FOR DEPUTATION:

Officers holding analogous posts on regular basis or with 5 years' regular service in posts in the pre-revised scale of pay of Rs.10000-325-15200 or equivalent under the Central/ State Govts./ UT Administrations/ Universities/ Recognised Research Institutions/ Public Undertakings and possessing the qualifications and experience prescribed for the above mentioned post, as indicated against item No. 6 hereunder.

(II) FOR PROMOTION:

Senior Research Officers of the Planning Commission with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and possessing the qualifications and experience prescribed for the above mentioned post as indicated against item No.6 hereunder.

4. AGE LIMIT :

The maximum age limit for appointment by Transfer on Deputation (including Short-Term Contract) shall be not exceeding 56 years as on the crucial date for determining eligibility as indicated against item No. 5 hereunder.

5. CRUCIAL DATE FOR DETERMINING ELIGIBILITY :

Last date of receipt of applications.

6. QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE:

DEPUTY ADVISER (TEXTILES)

ESSENTIAL:

- (i) Degree in Textile Technology of a recognized University or equivalent.
- (ii) 10 years' practical/research/design/ development experience in the field of textiles or in planning/execution of development programmes related to textile industry, etc.

DESIRABLE:

- (i) Master's degree in Textile Technology.
- (ii) Knowledge of problems related to the development of textiles and associated industries like chemicals, machinery, etc.
- (iii) Experience of techno-economic evaluation of feasibility studies/detailed project reports.

7. PERIOD OF DEPUTATION/ CONTRACT:

Period of deputation/ contract including period of deputation/ contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The terms and conditions of deputation will be regularized according to the orders contained in the Govt. of India, DoPT's OM No.2/29/91-Estt.(P.II), dated 5th January, 1994 as amended from time to time and in the case of those coming on contract, the terms will be settled in consultation with the concerned authorities as per the instructions issued by DoPT.

The interested and eligible officers may send their application (in duplicate) in the enclosed proforma through proper channel to Under Secretary (Adm.I), Planning Commission, Yojana Bhawan, Sansad Marg, New Delhi-110 001. **The closing date for receipt of applications will be 60 days from the date of publication of advertisement in the Employment News.** Confidential Report Dossier / Attested Photocopies of last 5 years, Integrity Certificate, Vigilance Clearance Certificate and the list of major/ minor penalties, if any, imposed on the officer during the last 10 years / No Penalty Certificate (in prescribed format) in respect of the officer are also required to be sent alongwith the application.

Applicant should ensure that the application is complete in all respects and is in the prescribed proforma. No column of the format should be left blank. Wherever information is "Not Applicable" or it is "Nil", it may please be so stated. Only complete applications (**two copies**) received through proper channel alongwith all the documents on or before the specified closing date shall be considered. Applications received after the closing date or those which are not in the prescribed proforma or those which are incomplete or advance applications will not be considered. The details of these vacancies are also available on Planning Commission website, i.e. <http://www.planningcommission.gov.in> under the link "**circulars**".

**[FORMAT OF VARIOUS CERTIFICATES REQUIRED TO BE ENCLOSED SEPARATELY
ALONGWITH THE APPLICATION OF CANDIDATE WHO APPLIES FOR DEPUTATION
(INCLUDING SHORT-TERM CONTRACT) BASIS]**

INTEGRITY CERTIFICATE

After scrutinizing Annual Confidential Reports of Dr./Shri/Smt./Ms. _____, _____ who has applied for the post of Deputy Adviser (_____) in the Planning Commission on Transfer on Deputation basis, it is certified that his/ her integrity is beyond doubt.

[To be signed by an Officer of the rank of
Deputy Secretary or above]

Name & Office Seal :

Date :

VIGILANCE CLEARANCE CERTIFICATE

Certified that no vigilance case or disciplinary proceedings or criminal proceeding is either pending or contemplated against Dr./Shri/Smt./Ms. _____, _____ who has applied for the post of Deputy Adviser (_____) in the Planning Commission on Transfer on Deputation basis.

[Authorised signatory]

Name & Office Seal :

Date :

NO PENALTY CERTIFICATE

Certified that no minor/ major penalty has been imposed on Dr./Shri/Smt./Ms. _____, _____ who has applied for the post of Deputy Adviser (_____) in the Planning Commission on Transfer on Deputation basis during the last ten years.

[Authorised signatory]

Name & Office Seal :

Date :

प्रपत्र / PROFORMA

आवेदित पद का नाम _____
Name of the post applied for _____

1. नाम और पता / Name and Address (In Block Letters)
2. जन्म तिथि / Date of birth (in Christian era)
3. केन्द्रीय / राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत सेवा-निवृत्ति की तारीख / Date of retirement under Central/ State Govt. Rules
4. शैक्षिक अर्हताएं / Educational Qualifications
5. क्या निर्धारित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं प्राप्त हैं (यदि कोई अर्हता निर्धारित अर्हता के समकक्ष मानी जा रही है तो उस संबंध में प्राधिकरण का नाम बताएं) / Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same).

निर्धारित अर्हताएं / अनुभव / Qualifications / Experience required	अधिकारी द्वारा प्राप्त अर्हताएं / अनुभव /Qualifications / Experience possessed by the officer
अनिवार्य / Essential : 1. 2. 3. वांछनीय / Desirable: 1. 2. 3.	

6. कृपया यह स्पष्ट बताएं कि ऊपर इंगित तथ्यों के आधार पर क्या आप उक्त पद के लिए निर्धारित आवश्यकताएँ पूरी करते हैं / Please State clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirement of the post.
7. सेवा संबंधी कालक्रमानुसार विवरण. आवश्यकता होने पर, हस्ताक्षरित अलग पृष्ठ संलग्न कर पूरा ब्यौरा दें / Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

कार्यालय / संस्थान / Office/ Institution	धारित पद/ Post held	से / From	तक /To	CM oru v/s XM is/ Pay Band and Grade pay	कार्य का स्वरूप / Nature of duties (in details)

8. वर्तमान सेवा का स्वरूप अर्थात् तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा स्थायीवत् अथवा स्थायी / Nature of present employment i.e. Ad-hoc or Temporary or Quasi-permanent or Permanent.
9. यदि वर्तमान सेवा प्रतिनियुक्ति / संविदा आधार पर है तो कृपया बताएं कि / In case the present employment is held on deputation/ contract basis, please state -
- प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि / The date of initial appointment
 - नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति / संविदा की अवधि / Period of appointment and deputation/ contract
 - मूल कार्यालय / संगठन का नाम / Name of the parent office/ organisation to which you belong
10. वर्तमान सेवा के बारे में अतिरिक्त विवरण / Additional details about present employment
- कृपया नियोक्ता का नाम संबंधित कॉलम के सामने लिखें / Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column).
- Central Govt.
 - State Govt.
 - Autonomous Organisation
 - Government Undertaking
 - Universities
 - Others
11. कृपया यह बताएं कि आप उसी कार्यालय में कार्यरत हैं और क्या आप परिपूरक ग्रेड में या परिपूरक के परिपूरक ग्रेड में हैं / Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.
12. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हाँ, तो संशोधन की तिथि तथा संशोधन पूर्व वेतनमान बताएं / Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale.
13. वर्तमान में प्राप्त हो रहीं कुल परिलब्धियाँ / Total emoluments per month now drawn.
14. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसके बल पर आप उक्त पद हेतु अपनी उपयुक्तता का दावा करते हैं / Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post.

15. कृपया यह बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति अथवा अल्पावधि अनुबंध आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं (केन्द्र / राज्य सरकार @ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के अधिकारी ही प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे. VU; अभ्यर्थी अल्पकालिक अनुबंध के लिए पात्र होंगे) / Please state whether you are applying for deputation or short-term contract basis. (Employees of Central/ State Governments/U.T. Administrations are eligible for "Deputation". Others would be eligible for Short-Term Contract.

16. क्या अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के हैं /Whether belongs to SC/ ST.

17. अभ्युक्तियाँ (अभ्यर्थी (i) अनुसंधान प्रकाशनों और प्रतिवेदनों और विशेष परियोजनाओं; (ii) पुरस्कारों / छात्रवृत्तियों /सरकारी प्रोत्साहनों (iii) व्यावसायिक संस्थानों / संगठनों / समितियों से संबद्धता इत्यादि के बारे में विवरण दे सकते हैं) (टिप्पणी : यदि आवश्यकता हो तो अलग पृष्ठ संलग्न करें) Remarks [The candidates may indicate information with regard to (i) Research publications and reports and special projects (ii) Awards/ Scholarship/ Official Appreciation (iii) Affiliation with the professional bodies/ institutions/ societies and (iv) any other information.] (Note : Enclose a separate sheet if the space is insufficient)

मैंने रिक्ति परिपत्र / विज्ञापन ध्यान पूर्वक पढ़ा है और मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ कि मेरे आत्मवृत्त के समर्थन में मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों का, चयन करते समय, चयन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा / I have carefully gone through the vacancy circular/ advertisement and I am well aware that the Curriculum Vitae duly supported by documents submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post.

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर :

पता :

Signature of the candidate:

Address:

दिनांक :

Date:

प्रतिहस्ताक्षरित :

(नियोक्ता का नाम व कार्यालय मोहर)

Counter signed:

(Employer with Seal)
